



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 28, 2019/माघ 8, 1940

No. 345]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 28, 2019/MAGHA 8, 1940

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2019

का.आ. 458(अ).—केन्द्रीय सरकार, समान पारिश्रमिक नियम, 1991 पर केन्द्रीय सलाहकार समिति के नियम 3 और 4 के साथ पठित समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) तारीख 18 नवम्बर, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3485(अ) को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करते हुए केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन करती है, अर्थात्: —

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | श्रम और रोजगार मंत्री | अध्यक्ष; |
| 2. | सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय | पदेन सदस्य; |
| 3. | संयुक्त सचिव, भारत सरकार,
श्रम और रोजगार मंत्रालय
(प्रभारी बाल और महिला श्रम) | पदेन सदस्य; |
| 4. | संयुक्त सचिव, भारत सरकार,
महिला और बाल विकास मंत्रालय
(प्रभारी महिला कल्याण) | पदेन सदस्य; |

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 5. | सलाहकार, श्रम और रोजगार प्रभाग, नीति आयोग | पदेन सदस्य; |
| 6. | सचिव, श्रम विभाग, ओडिशा सरकार | पदेन सदस्य; |
| 7. | सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार | पदेन सदस्य; |
| 8. | सचिव, श्रम विभाग, पुद्दुचेरी, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन | पदेन सदस्य; |
| 9. | सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग,
प्लॉट 21, जसौला औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली-110025 | पदेन सदस्य; |
| 10. | श्रीमती पूजा कपिल मिश्रा,
मकान संख्या-10-बी, मोतीडूंगरी, अलवर,
राजस्थान-301001 | गैर-सरकारी सदस्य; |
| 11. | श्रीमती सुखप्रीत कौर,
मकान संख्या-35, गुरुनानक कालोनी, गुरुद्वारा के पास, विदिशा,
मध्य प्रदेश-464001 | गैर-सरकारी सदस्य; |
| 12. | श्रीमती योगिता सिंह,
मकान संख्या-16-बी, पॉकेट ए-10, कोहिनूर अपार्टमेन्ट,
कालकाजी एक्सटेंशन,
नई दिल्ली-110019 | गैर-सरकारी सदस्य; |
| 13. | श्रीमती दर्शना सिंह,
प्लॉट संख्या-74, बजरंगनगर, अशोकपुरम कालोनी, डाफी,
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी,
उत्तर प्रदेश-221011 | गैर-सरकारी सदस्य; |
| 14. | श्रीमती इंदू सेठी,
एच-7/1, नॉर्थ सिटी एक्सटेंशन, बरेली,
उत्तर प्रदेश-243001 | गैर-सरकारी सदस्य; |
| 15. | डॉ० वुप्पाला शारदा,
जेहरा नगर, रोड़ संख्या 10, बंजारा हिल्स,
हैदराबाद-500034 | गैर-सरकारी सदस्य; |

16. श्रीमती चन्द्र रेखा पाण्डेय,
मारुती बिल्डिंग, ग्रांऊड फ्लोर,
12, लाउडन स्ट्रीट, कोलकाता-700017 गैर-सरकारी सदस्य;
17. डॉ० जी. एम. स्वामी,
डी०संख्या-ई.एफ.-17,
तीसरी मंजिल, इन्द्र पुरी,
नई दिल्ली-110012 गैर-सरकारी सदस्य;
18. डॉ० टी. वसन्था लक्ष्मी रविकुमार,
16-11/131, कस्तुरीदेवी नगर, पोगथोटा, नेल्लोर,
आंध्र प्रदेश-524001 गैर-सरकारी सदस्य;
19. डॉ० सुरेश कुमार गंगवार,
ग्रामऔर पोस्ट- बरा, तहसील-किच्छा,
जिला-उधमसिंह नगर,
उत्तराखण्ड-263148 गैर-सरकारी सदस्य।
2. इस समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

[फा. सं. ए-42011/12/2018-सी एण्ड डब्ल्यूएल-॥]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th January, 2019

S.O. 458(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Equal Remuneration Act, 1976 (25 of 1976) read with rules 3 and 4 of the Central Advisory Committee on Equal Remuneration Rules, 1991, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O.3485 (E), published in the Gazette of India, Part II, section-3, sub-section (ii), dated the 18th November, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes the Central Advisory Committee consisting of the following members, namely:-

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Minister for Labour and Employment | Chairman; |
| 2. Secretary, Ministry of Labour and Employment | <i>Ex-officio</i> member; |
| 3. Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment
(In-charge of child and women labour) | <i>Ex-officio</i> member; |
| 4. Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Women and Child Development
(In-charge of women welfare) | <i>Ex-officio</i> member; |
| 5. Adviser, Labour and Employment Division,
NITI Aayog | <i>Ex-officio</i> member; |
| 6. Secretary, Labour Department,
Government of Orissa | <i>Ex-officio</i> member; |
| 7. Secretary, Labour Department,
Government of Uttar Pradesh | <i>Ex-officio</i> member; |
| 8. Secretary, Labour Department,
Puducherry, Union Territory Administration | <i>Ex-officio</i> member; |

- | | | |
|-----|---|---------------------------|
| 9. | Member Secretary,
National Commission for Women,
Plot 21, Jasola Institutional Area,
New Delhi -110025 | <i>Ex-officio</i> member; |
| 10. | Smt. Pooja Kapil Mishra
H.No.10-B, MotiDungari, Alwar
Rajasthan-301001 | Non-official member; |
| 11. | Smt. Sukhpreet Kaur
H.No.35, Gurunanak Colony
Near Gurudwara, Vidisha
Madhya Pradesh 464001 | Non-official member; |
| 12. | Smt. Yogita Singh
H.No. 16-B, Pocket A-10
Kohinoor Apartment
Kalkaji Extension
New Delhi-110019 | Non-official member; |
| 13. | Smt. Darshana Singh
Plot No. 74, Bajrangnagar,
Ashokpuram Colony, Dafi
Banaras Hindu University, Varanasi
Uttar Pradesh- 221011 | Non-official member; |
| 14. | Smt. InduSethi
H-7/1, North City Extension, Bareilly
Uttar Pradesh - 243001 | Non-official member; |
| 15. | Dr. VuppalaSarada
Zehra Nagar, Road No. 10, Banjara Hills
Hyderabad- 500034 | Non-official member; |
| 16. | Mrs. Chandra Rekha Pandey
Maruti Building, Ground Floor,
12, Loudon Street,
Kolkata – 700017 | Non-official member; |
| 17. | Dr. G. M.Swamy
D.No.EF-17, 3 rd Floor, Inder Puri,
New Delhi- 110012 | Non-official member; |
| 18. | Dr. T. Vasantha Lakshmi Ravikumar
16-11/131, Kasturidevi Nagar,
Pogathota , Nellore,
Andhra Pradesh- 524001 | Non-official member; |
| 19. | Dr. Suresh Kumar Gangwar
Vill and Post – Bara, Tehsil-Kichha
Distt-Udham Singh Nagar
Uttarakhand- 263148 | Non-official member. |

2. The term of office of non-official members of the Committee shall be two years.

[F. No. A-42011/12/2018-C &WL-II]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.